

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-16122023-250715
SG-DL-E-16122023-250715

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 366]	दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 15, 2023/अग्रहायण 24, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 336
No. 366]	DELHI, FRIDAY, DECEMBER 15, 2023/AGRAHAYANA 24, 1945	[N. C. T. D. No. 336

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2023

फा. सं. 21/25/Apprn. 4/2023/LAS-VII/Leg./6712.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

दिल्ली विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2023

[2023 की विधेयक संख्या 06]

(जैसा की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में दिनांक 15 दिसम्बर, 2023 को पुरःस्थापित किया गया)

2023 की विधेयक संख्या 06

दिल्ली विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2023

एक विधेयक

वर्ष 2023-2024 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए एक विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त शीर्षक

₹2165,56,68,000/- का वर्ष 2023-2024 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचितनिधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग (संख्या 4) अधिनियम 2023 है।

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट स अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए दो हजार एक सौ पैंसठ करोड़ छप्पन लाख अड़सठ हजार रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2023-2024 की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होंगी।

विनियोजन

3. इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।

अनुसूची

(धारा 2 और धारा 3 देखिए)

(₹ हजार में)

निम्नलिखित से अनाधिक राशियां

अनुदान संख्या	सेवाएं और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
I	II		III	IV	V
1	विधान मंडल	राजस्व	300	200	500
		पूँजी	100	0	100
2	सामान्य प्रशासन	राजस्व	900	700	1600
		पूँजी	1000	200	1200
3	न्याय प्रशासन	राजस्व	522584	1356	523940
		पूँजी	2900	0	2900
4	वित्त	राजस्व	1616	100	1716
		पूँजी	1025	0	1025
5	गृह	राजस्व	221580	0	221580
		पूँजी	650	0	650
6	शिक्षा	राजस्व	9692	46000	55692
		पूँजी	600	0	600
7	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	राजस्व	10674	26000	36674
		पूँजी	1300	0	1300
8	समाज कल्याण	राजस्व	3941035	61570	4002605

		पूँजी	6681150	0	6681150
9	उद्योग	राजस्व	1340	0	1340
		पूँजी	312420	0	312420
10	विकास	राजस्व	2124133	0	2124133
		पूँजी	3100	1931	5031
11	शहरी विकास और लोक निर्माण	राजस्व	6925412	100	6925512
		पूँजी	3900	750000	753900
15	सार्वजनिक ऋण	पूँजी	0	100	100
	योग		20767411	888257	21655668

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 (1992 का 1) की धारा 29 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 30 (1) (क) में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा पारित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि पर भारित व स्वीकृत व्यय को वहन करने के लिए आवश्यक धन राशि के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से विनियोजन की व्यवस्था के लिए दिल्ली विनियोग (संख्या 4) अधिनियम 2023, विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।

दिल्ली 14 दिसम्बर, 2023

आतिशी, वित्त मंत्री

विधायी शक्ति प्रदान करने संबंधी ज्ञापन

दिल्ली विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2023 का उद्देश्य किसी अधीनस्थ अधिकारी को अतिरिक्त विधायी शक्ति प्रदान करना नहीं है।

राज कुमार, सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

NOTIFICATION

Delhi, the 15th December, 2023

F. No. 21/25/Apprn.4/2023/LAS-VII/Leg./6712.—The following is published for general information.—

THE DELHI APPROPRIATION (NO. 04) BILL, 2023

[BILL No. 06 of 2023]

(As introduced in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 15th December, 2023)

BILL No. 06 OF 2023

THE DELHI APPROPRIATION (No. 4) BILL, 2023

A

BILL

to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the financial year 2023-2024.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Delhi Appropriation (No.4) Act, 2023.

Issue of `2165,56,68,000/-from

2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory

and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year 2023-2024.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

(₹ In thousand)

SUMS NOT EXCEEDING

Demand No.	Services and Purposes		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
I	II		III	IV	V
1	Legislative Assembly	Revenue	300	200	500
		Capital	100	0	100
2	General Administration	Revenue	900	700	1600
		Capital	1000	200	1200
3	Administration of Justice	Revenue	522584	1356	523940
		Capital	2900	0	2900
4	Finance	Revenue	1616	100	1716
		Capital	1025	0	1025
5	Home	Revenue	221580	0	221580
		Capital	650	0	650
6	Education	Revenue	9692	46000	55692
		Capital	600	0	600
7	Medical and Public Health	Revenue	10674	26000	36674
		Capital	1300	0	1300
8	Social Welfare	Revenue	3941035	61570	4002605
		Capital	6681150	0	6681150
9	Industries	Revenue	1340	0	1340
		Capital	312420	0	312420
10	Development	Revenue	2124133	0	2124133
		Capital	3100	1931	5031
11	Urban Development and Public Works	Revenue	6925412	100	6925512
		Capital	3900	750000	753900
15	Public Debt	Capital	0	100	100
	Total		20767411	888257	21655668

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Delhi Appropriation (No. 4) Bill, 2023 is introduced in pursuance of sub-section (1) of section 29 read with clause (a) of sub-section (1) of section 30 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (1 of 1992) to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, of the moneys required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and the grants voted by the Legislative Assembly for the expenditure of Government of National Capital Territory of Delhi for the financial year 2023-2024.

This bill seeks to achieve the above objectives.

ATISHI, Finance Minister

Delhi, the 14th December, 2023

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The Delhi Appropriation (No.4) Bill, 2023 does not seek to confer any additional power of legislation on any subordinate functionaries.

RAJ KUMAR, Secy.